



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 13—अक्टूबर 19, 2007 (आश्विन 21, 1929)  
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13—OCTOBER 19, 2007 (ASVINA 21, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 24 सितम्बर 2007

सं. ए. 22017/04/2007/पीएमए—श्री अशीष कुमार सिंह, आई.ए. एस. (महाराष्ट्र : 88) के सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी, अमेरिका में दीर्घावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम 'एम.ए. इन पब्लिक सर्विस' में चले जाने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 30 अगस्त, 2007 के अपराह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) के निजी सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी. के. राय, उप-सचिव

में उप निदेशक (संपा. एवं अनु.) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री आर. वी. शर्मा, जिन्हें पूर्व में अधिसूचना सं. आर.एस. 3(xi)/2007/87-कार्मिक दिनांक 1 अगस्त, 2007 द्वारा तदर्थ आधार पर उप निदेशक (संपा. एवं अनु.) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया था, को अब तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

सं. आर.एस. 3(xi)/2007/101-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (संपा. एवं अनु.) श्रीमती हेमलता अत्री को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान

सं. आर.एस. 3(xi)/2007/109-कार्मिक—श्री बृजेश कुमार त्यागी, जिन्हें पूर्व में अधिसूचना सं. आर.एस. 3(xi)/2007/77-कार्मिक दिनांक 16 जुलाई, 2007 द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया था, को अब तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आर.एस./1364/स्था.(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री राम प्रकाश खेड़ा, संयुक्त निदेशक (संपादन एवं अनुवाद सेवा) 30 सितम्बर, 2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 3 मार्च 2007

सं. पी.एफ. 1236(3)/जीएन-5808/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,750-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित उप सचिवों, ग्रेड-I, जिन्हें क्रमशः 23 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. जीएन-5615 तथा 12 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना सं. जीएन-5734 द्वारा तदर्थ आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को 15,100-400-18,300 रुपए के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री गोपाल सिंह
2. श्री आर. एस. मिश्रा

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1024(3)/जीएन-5809/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,750-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित उप सचिवों, ग्रेड-I को 15,100-400-18,300 रुपए के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में नियुक्त करते हैं :--

1. श्री पी. डी. मलवालिया
2. श्री हरदेव सिंह
3. श्री आर. के. सक्सेना
4. श्री आर. एस. कम्बो
5. श्रीमती सुदेश लूथरा

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2086(3)/जीएन-5810/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,750-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित उप सचिवों, ग्रेड-I को 15,100-400-18,300 रुपए के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 3 मार्च, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री अभिजीत कुमार
2. श्रीमती अनीता जैन
3. श्री राजीव शर्मा
4. श्री सुरेन्द्र सिंह
5. श्री बी. डी. स्वैन
6. श्री आर. के. बजाज

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2022(3)/जीएन-5811/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित उप सचिवों, ग्रेड-II को 12,750-375-16,500 रुपए के वेतनमान में उप सचिव ग्रेड-I के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री के. एल. अरोड़ा
2. श्री जे. एस. चौहान
3. श्री के. डी. मूले
4. श्री शिव सिंह
5. श्री वी. एस. दहिया
6. श्री पी वी एल एन मूर्ति
7. श्री अशोक बलवानी\*
8. श्री भूपेश कुमार
9. कुमारी जे. सी. नामच्यो
10. श्री पी. सी. कौल
11. श्रीमती नीरा सिंह
12. श्री एन. एस. हूडा
13. श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी
14. श्री शिव कुमार
15. श्री यू. बी. एस. नेगी
16. श्री रवीन्द्र गरीमेल्ला
17. श्री एन. सी. गुप्ता
18. श्री एस. सी. कालीरामन
19. श्री बी श्रीनिवास प्रभु
20. श्री डी. एस. मालाह
21. श्री आर. सी. तिवारी
22. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर
23. श्रीमती अनीता बी. पांडा
24. श्री पवन कुमार

\*अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर 28 फरवरी, 2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हुए।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1400(3)/जीएन-5812/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत श्री जगदीश प्रसाद, अवर सचिव, जिन्हें 29 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. जीएन-5788 के द्वारा तदर्थ आधार पर अवर सचिव (संशोधित पदनाम-उप सचिव ग्रेड-II) के रूप में नियुक्त किया गया था, को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में उप सचिव ग्रेड-II के ग्रेड में नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1285(3)/जीएन-5813/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अवर सचिवों को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में उप सचिव ग्रेड-II के

ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से नीचे दर्शाए गए क्रम में अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती मंजु चौधरी
2. श्री वी. पी. गोयल
3. श्री आर. सी. जैन
4. श्री आर. डी. सिलावट
5. श्रीमती एस. के. जौहर

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1529(3)/जीएन-5814/ए एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अवर सचिवों को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में उप सचिव ग्रेड-II के ग्रेड में 3 मार्च, 2007 से नीचे दर्शाए गए क्रम में अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री होती लाल
2. श्री ए. के. कौशिक
3. श्री ए. के. मुंशी
4. श्री आर. एस. पैवार
5. श्रीमती गुरजीत कौर भुमनाओ
6. श्री एच. आर. कम्बोज
7. श्री लवकेश कुमार शर्मा
8. श्री किशन चंद
9. श्री ए. के. श्रीवास्तव
10. श्री जय कुमार टी
11. श्री टी. एस. रंगराजन
12. श्रीमती निर्मला अभिचंदानी
13. श्री हुलासी राम
14. श्री हरीश चन्द्र-II
15. श्री राजेश रंजन कुमार
16. श्री राजू श्रीवास्तव

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1339(3)/जीएन-5815/ए एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारियों, जिन्हें 29 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या जी एन-5791 के द्वारा तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (संशोधित पदनाम--अवर सचिव) के रूप में नियुक्त किया गया था, को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती सरोज शर्मा
2. श्री जी. सी. छाबड़ा

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1356(3)/जीएन-5816/ए एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारियों को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती कमलेश पाहवा
2. श्री वी. पी. गुप्ता
3. श्री आर. के. भटनागर
4. श्री आर. सी. भारद्वाज
5. श्रीमती पूनम शर्मा
6. श्रीमती किरण लता नंदवानी
7. श्री वी. के. गुप्ता
8. श्री टी. एच. राव
9. श्रीमती कमलेश माटा
10. श्री अरविंद शर्मा
11. श्रीमती बी. विशाला
12. श्री रमेश लाल
13. श्रीमती माया लिंगी
14. श्री जे. के. जैन
15. श्रीमती सुरिन्दर मरवाह
16. श्री एच. राम प्रकाश
17. श्रीमती सुनीता
18. श्री विशम्भर दयाल
19. श्री एम. एल. के. राजा
20. श्री त्रिलोकचंद
21. श्री राम किशन
22. सुश्री अमिता बालिया

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2397(3)/जीएन-5817/ए एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी श्री संजीव कुमार मिश्रा, जो वर्तमान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर हैं को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष प्रोफार्मा प्रदान करते हैं। वह अवर सचिव के ग्रेड में श्रीमती बी. विशाला से कनिष्ठ होंगे।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2510(3)/जीएन-5818/ए एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी श्री सत्य प्रकाश, जो इस समय ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान करते हैं। वह अवर सचिव के ग्रेड में सुश्री अमिता बालिया से वरिष्ठ परंतु श्री राम किशन से कनिष्ठ होंगे।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 3824(3)/जीएन-5819/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारियों को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्रीमती ज्योत्सना सिंहा
2. श्री ललकीथांग
3. श्री सुंदर प्रसाद दास
4. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1848(3)/जीएन-5820/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 7,450-11,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायक श्री अजीत कुमार यादव, जिन्हें 22 जून, 2006 की अधिसूचना सं. जी.एन.-5677 के द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, को 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में दिनांक 28 फरवरी, 2007 से 27 फरवरी, 2009 तक परीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर.एंड सी.एस. आदेश सं.-पीडीए-1076/2003 के अनुसार विनियमित होगी।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1823(3)/जीएन-5821/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,750-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-I को 15,100-400-18,300 रुपए के वेतनमान में निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में, नीचे दर्शाए गए क्रम में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री फ्रैंक क्रिस्टोफर
2. डॉ. बी. के. भटनागर
3. श्री ए. के. लाड
4. श्री के. बी. तिवारी
5. श्री एन. के. आर. कलिंगन
6. श्री अशोक कुमार

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1968(3)/जीएन-5822/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II को 12,750-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त

निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड-I में, नीचे दर्शाए गए क्रम में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्रीमती कांता पंडित
2. श्रीमती आशा वांगनू
3. श्रीमती मोना मल्ला
4. श्री आर. एल. शाली
5. डा. आर. एन. दास
6. श्री के. के. दत्ता
7. श्रीमती स्वपना घोस
8. श्री सी. बी. नागपाल
9. कु. सरोज बाला
10. श्री सी. एन. सत्यनाथन
11. श्री जे. सी. शर्मा

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1394(3)/जीएन-5823/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II श्री यू. के. मित्रा, जो इस समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्त पर हैं, को 12,750-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड-I में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान करते हैं। वह संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-I के ग्रेड में, श्रीमती मोना मल्ला से वरिष्ठ परंतु श्रीमती आशा वांगनू से कनिष्ठ होंगे।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2091(3)/जीएन-5824/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II डॉ. डी. के. सिंह, जो इस समय कृषि मंत्री के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्त पर हैं, को 12,750-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-I के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हैं। वह संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-I के ग्रेड में, डॉ. आर. एन. दास से वरिष्ठ परंतु श्री आर. एल. शाली से कनिष्ठ होंगे।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1893(3)/जीएन-5825/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II को 12,750-375-16,500 रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड-I में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री वी. के. मिश्र
2. श्रीमती ऊषा माधुर

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2322(3)/जीएन-5826/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में उप निदेशक (लार्डिस) डा. बी. सी. जोशी जिन्हें 2 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. जीएन-5626 के द्वारा तदर्थ आधार पर उप निदेशक (लार्डिस) [संशोधित पदनाम-संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II] के रूप में नियुक्त किया गया था, को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II के ग्रेड में नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2311(3)/जीएन-5827/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत उप निदेशक (लार्डिस) डा. पी. जे. एंटोनी, जो इस समय माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के विशेष कार्य अधिकारी (शोध एवं सूचना) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिन्हें दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. जीएन-5770 के द्वारा उप निदेशक (लार्डिस) [संशोधित पदनाम-संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II] के रूप में तदर्थ आधार पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई थी, को 12000-375-16500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक लार्डिस ग्रेड-II के ग्रेड में नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हैं। वह संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II के ग्रेड में श्री पुलिन बी. भूटिया से वरिष्ठ परंतु डा. बी. सी. जोशी से कनिष्ठ होंगे।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2318(3)/जीएन-5828/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित उप निदेशकों (लार्डिस) को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II के ग्रेड में, नीचे दर्शाए गए क्रम में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री पुलिन बी. भूटिया
2. श्री हर्ष चतुर्वेदी
3. श्रीमती सुषमा रूंगटा
4. श्री प्रदोष पांडा
5. डा. जयदेव साहू
6. श्री बी. फणी कुमार
7. श्रीमती नीलम सेठी
8. श्री आर. के. ठाकुर
9. श्रीमती परमा चटर्जी

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2498(3)/जीएन-5829/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत उप निदेशक (लार्डिस) श्री नौशाद आलम, जो इस समय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लार्डिस)

ग्रेड-II के ग्रेड में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान करते हैं। वह संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II के ग्रेड में श्री बी. फणी कुमार से वरिष्ठ और डा. जयदेव साहू से कनिष्ठ होंगे।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2343(3)/जीएन-5830/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत उप निदेशक (लार्डिस) श्रीमती सुनंदा दास मोहन्ती को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II के ग्रेड में 3 मार्च, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1973(3)/जीएन-5831/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत उप निदेशक (लार्डिस) श्रीमती सुनीता भल्ला को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 3643(3)/जीएन-5832/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत, निम्नलिखित शोध/संदर्भ अधिकारियों, जिन्हें 28 जून, 2005 की अधिसूचना सं. जीएन-5491 के द्वारा तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (लार्डिस) [संशोधित पदनाम-उप-निदेशक (लार्डिस)] नियुक्त किया गया था, को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में उप-निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में, नीचे दर्शाए गए क्रम में, नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा
2. श्री संजय कुमार

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2723(3)/जीएन-5833/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत, निम्नलिखित शोध/संदर्भ अधिकारियों, जिन्हें क्रमशः 11 नवम्बर, 2005 और 20 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचनाओं सं. जीएन-5569 और जीएन-5772 द्वारा तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (लार्डिस) [संशोधित पदनाम-उप-निदेशक (लार्डिस)] नियुक्त किया गया था, को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में उप-निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में, नीचे दर्शाए गए क्रम में, नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. डा. रणबीर कुमार
2. श्रीमती मुसरत नौशाद

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2725(3)/जीएन-5834/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत, निम्नलिखित शोध/संदर्भ अधिकारियों को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में उप-निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में, नीचे दर्शाए गए क्रम में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री संजीव सचदेवा
2. श्रीमती शांता वर्मा
3. डा. (श्रीमती) सीमा कौल सिंह
4. श्रीमती रचना शर्मा
5. डा. दीपक गोसाई
6. श्री शशिकांत बहीरट
7. श्री प्रशांत कुमार मलिक
8. श्री बाबूलाल नाईक
9. श्रीमती इन्दु गोयल
10. श्री राज कुमार

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2170(3)/जीएन-5835/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 7,450-11,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत, शोध/संदर्भ सहायक श्री दलीप सिंह, जिन्हें 30 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. जीएन-5596 द्वारा तदर्थ आधार पर शोध/संदर्भ अधिकारी नियुक्त किया गया था, को 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से 27 फरवरी, 2009 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के आर एंड सी.एस. आदेश सं. पी डी ए 1076/2003 के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1715(3)/जीएन-5836/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत, निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (अनुवाद) ग्रेड-II को 12750-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (अनुवाद) ग्रेड-I के ग्रेड में, नीचे दर्शाए गए क्रम में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री जगमोहन स्वरूप वत्स
2. श्रीमती वंदना त्रिवेदी
3. श्रीमती कमला शर्मा
4. श्री देवेन्द्र कुमार
5. श्री प्रमेश कुमार शर्मा
6. श्री वेद प्रकाश शर्मा-1

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1941(3)/जीएन-5837/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत, निम्नलिखित संपादकों को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (अनुवाद) ग्रेड-II के ग्रेड में, नीचे दर्शाए गए क्रम में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री जे. सी. शर्मा
2. श्री जे. बी. शर्मा
3. श्री एस. सी. काले
4. श्री आर. एल. रैना
5. कुमारी उषा जैन
6. श्री पी. सी. दत्त

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2144(3)/जीएन-5838/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत श्रीमती विजय कुमारी, सहायक संपादक, जिन्हें दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना सं. जीएन-5739 के द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक नियुक्त किया गया था, को 28 फरवरी, 2007 से नियमित आधार पर 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में अगले आदेशों तक संपादक के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2168(3)/जीएन-5839/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित सहायक संपादकों को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में संपादक के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री वी. के. कौशिक
2. श्री अशीत भूषण
3. श्री ए. के. सिन्हा
4. श्रीमती कावेरी जेसवाल
5. श्री संजय श्रीवास्तव

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2285(3)/जीएन-5840/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000-13,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत श्री राजीव शर्मा, सहायक संपादक को तदर्थ आधार पर 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में संपादक के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2127(3)/जीएन-5841/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 7,450-11,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत श्रीमती कीर्ति यादव, अनुवादक, जिन्हें दिनांक 5 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. जीएन-5404

द्वारा तदर्थ आधार पर सहायक संपादक नियुक्त किया गया था, को 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में सहायक संपादक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में, नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह सहायक संपादक के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से 27 फरवरी, 2009 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2613(3)/जीएन-5842/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 7,450-11,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अनुवादकों को 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में सहायक संपादक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती सुनीता अरोड़ा
2. श्रीमती सुनीता थपलियाल
3. श्री वीरेन्द्र सिंह रावत
4. श्री राजेंद्र कुमार शर्मा
5. सुश्री रेणुबाला सूदन
6. श्री योगेन्द्र कुमार
7. श्री हर सिंह

2. वे 28 फरवरी, 2007 से 27 फरवरी, 2009 तक दो वर्ष की अवधि के लिए सहायक संपादक के ग्रेड में परिवीक्षाधीन रहेंगे।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1914(3)/जीएन-5843/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (रिपोर्टिंग) ग्रेड-II को 12,750-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) ग्रेड-I के ग्रेड में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक, नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री एन. के. रस्तोगी
2. श्री एच. एन. गुप्ता
3. श्री पी. कुलशेखरन
4. श्रीमती अचला मल्होत्रा
5. श्री के. श्रीनिवासन

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2280(3)/जीएन-5844/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत संसदीय रिपोर्टों ग्रेड-I, जिन्हें क्रमशः दिनांक 18 मई, 2006 और दिनांक 30 मई, 2006 की अधिसूचनाएं सं. जीएन-5648 और जीएन-5660 द्वारा संसदीय रिपोर्ट ग्रेड-I [संशोधित पदनाम--संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) ग्रेड-II] के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) ग्रेड-II के ग्रेड में,

28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, नीचे दर्शाए गए क्रम में, सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव
2. श्री आर. भास्करन

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2193(3)/जीएन-5845/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संसदीय रिपोर्टों ग्रेड-I को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) ग्रेड-II के ग्रेड में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक, नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री के. के. ढींगरा
2. श्री आर. सी. गोसाई
3. श्री के. एम. राव

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 2928(3)/जीएन-5846/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संसदीय रिपोर्टों ग्रेड-I को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) ग्रेड-II के ग्रेड में, तदर्थ आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री मुथैया मोहन
2. श्री सोमनाथ बनर्जी
3. श्री एस. प्रभाकर

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1164(3)/जीएन-5847/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,750-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत श्री विनोद कुमार, संयुक्त निदेशक (पीएसएस) ग्रेड-I, जिन्हें दिनांक 19 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना सं. जीएन-5437 द्वारा मुख्य प्रधान निजी सचिव [संशोधित पदनाम--निदेशक (पीएसएस)] के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, को 15,100-400-18,300 रुपए के वेतनमान में निदेशक (पीएसएस) के ग्रेड में नियमित आधार पर, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ. 1125(3)/जीएन-5848/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (पीएसएस) ग्रेड-II को 12,750-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (पीएसएस) ग्रेड-I के ग्रेड में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री बी. एल. हेमरजानी
2. श्रीमती एन. के. कमला रमन

3. श्री एस. सी. शर्मा
4. श्रीमती सतेजिनी हिंगोराणी
5. श्रीमती आशा सूद

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

-----

सं. पी.एफ. 1480(3)/जीएन-5849/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ निजी सचिवों को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (पीएसएस) ग्रेड-II के ग्रेड में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती मधु तनेजा
2. श्रीमती गजिन्दर पाल कौर
3. श्रीमती प्रतिभा मेहरोत्रा
4. श्रीमती हरविन्दर कौर खण्डारी
5. श्री के. पी. गर्ग
6. श्री सुरेश चन्द्र

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

-----

सं. पी.एफ. 1916(3)/जीएन-5850/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 7,450-11,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों को 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में निजी सचिव के ग्रेड में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती शशि पाहवा
2. श्रीमती सुनीता अरोड़ा

2. वे 28 फरवरी, 2007 से 27 फरवरी, 2009 तक दो वर्षों की अवधि के लिए निजी सचिव के ग्रेड में परिवीक्षा पर रहेंगी।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

-----

सं. पी.एफ. 1825(3)/जीएन-5851/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000-16,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशको (भाषांतरण) ग्रेड-II को 12,750-375-16,500 रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (भाषांतरण) ग्रेड-I के ग्रेड में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती शिमला
2. श्री राकेश लखनपाल
3. श्री के. जॉन इरुदया सुन्दर

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

-----

सं. पी.एफ. 3130(3)/जीएन-5852/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संसदीय भाषांतरकारों ग्रेड-I को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में

संयुक्त निदेशक (भाषांतरण) ग्रेड-II के ग्रेड में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री अतुल आनन्द
2. श्री दछबंता समाम
3. कु. शिव मोघा

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

-----

सं. पी.एफ. 2437(3)/जीएन-5853/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 7,450-11,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ मुद्रण सहायकों को 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में मुद्रण प्रबंधक के ग्रेड में, 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री एन. के. ध्यानी
2. श्री सतीश चन्द्र

2. वे 28 फरवरी, 2007 से 27 फरवरी, 2009 तक दो वर्षों की अवधि के लिए मुद्रण प्रबंधक के ग्रेड में परिवीक्षा पर रहेंगे।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

-----

सं. पी.एफ. 2425(3)/जीएन-5854/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 7,450-11,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सुरक्षा सहायकों, जिन्हें क्रमशः 30 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. जीएन-5721 तथा 20 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. जीएन-5777 द्वारा तदर्थ आधार पर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया था, को 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में नियमित आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री आर. के. पूर्णवी
2. श्री बी. पी. रतूड़ी
3. श्रीमती दीपिका भल्ला

2. वे सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में, 28 फरवरी, 2007 से 27 फरवरी, 2009 तक दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

-----

सं. पी.एफ. 688(3)/जीएन-5855/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 7,450-11,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सुरक्षा सहायकों को 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री राजेन्द्र सिंह
2. श्री धन सिंह
3. श्री एस. एस. सांगवान

2. वे सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में, 28 फरवरी, 2007 से 27 फरवरी, 2009 तक दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव



सं. पी.एफ. 546(3)/जीएन-5856/ए एन-1/2007--अध्यक्ष महोदय, 7,450-11,500 रुपए के वेतनमान में कार्यरत श्री एस. पी. बौडियाल, वरिष्ठ सुरक्षा सहायक को 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 28 फरवरी, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

#### अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560 094, दिनांक 11 अगस्त 2007

सं. 4/2/3/2003-V(IV) (वाल्सू. V)--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम के डॉ. वी. आर. सनल कुमार, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी. (निलम्बनाधीन), को दिनांक 11 अगस्त, 2007 के समसंख्यक आदेश द्वारा 1 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से सेवा से बर्खास्त करती हैं।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2007

सं. ए.12025/01/2005-प्रशा.II--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में सांख्यिकी अन्वेषक श्रीमती सुरेखा सोनी को 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर, 13.09.2007 (पूर्वाह्न) से 12.09.2008 (अपराह्न) तक एक वर्ष की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2007

सं. ए-43011/16/2006-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 सितम्बर, 2007 के आदेश सं. 5/18/2007-सी.एस. I(डेस्क) के तहत रक्षा मंत्रालय में उनका स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप योजना आयोग में अवर सचिव, श्री प्रेम प्रकाश, सी.एस.एस. को दिनांक 26.09.2007 के अपराह्न से इस निदेश के साथ योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है कि वे नए पदभार संभालने हेतु रक्षा मंत्रालय में रिपोर्ट करें।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

#### विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2007

सं. ए-32014/2/2005-प्रशा.-1 (वि. वि.)--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के सक्षम प्राधिकारी, श्री टी. एस. मुरलीधरन, सहायक (विधि) को दिनांक

24 सितम्बर, 2007 की पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक विधि एवं न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में, रु. 7,500-250-12,000 के वेतनमान में, अधीक्षक (विधि) के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

के. वि. कुमार, सहायक विधायी परामर्शी एवं शाखा अधिकारी (प्रशा.1)

#### (विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2007

सं. ए-12023/7/2000-प्रशा.III(वि.का.)--आयकर अपील अधिकरण में लेखा सदस्य, श्री के. के. बोलिया, 62 वर्ष की आयु के हो जाने पर सेवा निवर्तन पर आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसरण में दिनांक 1 सितम्बर, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

यशवंत सिंह, उप सचिव

#### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

सं. I-14012/13/2007-आई पी एस-IV--राष्ट्रपति, 59 आर.आर. बैच (मणिपुर-त्रिपुरा : 2006) के आई पी एस परिवीक्षाधीन अधिकारी, श्री प्रदीप विर्क, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा, 2005 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, का 11 जुलाई, 2007 से भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

#### कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2007

सं. 24012/14/2007-अ.भा.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक संवर्ग की अधिकारी डॉ. अंशु भारद्वाज, भारतीय प्रशासनिक सेवा (के.टी.के. : 92) का इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

#### विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2007

सं. क्यू/पी.ए-1/43/2007--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-II में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 1 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
1.	श्री तलमीज अहमद	भा.वि.से. का ग्रेड-II	भा.वि.से. का ग्रेड-I

2. भा.वि.से. के ग्रेड-I में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. के ग्रेड-II में 01.09.2007 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-I में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफ.एस.पी.)

कार्यालय : उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2007

सं. डी. III/460/सी एफ-32/2007--भारत की राष्ट्रपति कोलकाता में चीन जनवादी गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में श्री माओ सीवि की नियुक्ति को मान्यता प्रदान करती है।

श्री माओ सीवि के कौंसली क्षेत्राधिकार में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य होंगे, जिसका केन्द्र कोलकाता है।

शाम के मुद्दगल, उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2007

सं. ए-12011/08/2007-प्रशा.2--व्यय विभाग (सीएस) के 13.09.2007 के का.ज्ञा. सं. 32014/3/2007-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'सी' श्री राकेश कुमार सूद तथा श्रीमती लता रामचंद्रन को 13.09.2007 (अपराह्न) से आरम्भ में 31.12.2007 तक की अवधि के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 6,500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड ए तथा बी (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) नियुक्त करते हैं।

2. आशुलिपिक ग्रेड ए तथा बी (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में श्री राकेश कुमार सूद तथा श्रीमती लता रामचंद्रन की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (i) इस नियुक्ति से इन अधिकारियों को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने तथा सीएसएसएस के ग्रेड ए तथा बी (सम्मिलित) (निजी सचिव) में नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा;
- (ii) इन तदर्थ नियुक्तियों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

शुद्धिपत्र

सं. ए.19011/14/2007-प्रशा.2--आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में अवर सचिव के पद अन्य के साथ-साथ श्री अनुराग रोहतगी की नियुक्ति के संबंध में इस विभाग की दिनांक 1.8.2007 की समसंख्यक अधिसूचना (सीएसएल सं.-5470-ए) में आंशिक संशोधन करते हुए उनके नाम के हिज्जे श्री "ANURAG ROHATGI" किए जाएं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. ए-19014/27/2007-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री सुरिन्दर सिंह कालरा, वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब एंड सिंध बैंक, को तदर्थ आधार पर, 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में, दिनांक 06.06.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II, चण्डीगढ़ में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19014/28/2007-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री जी. ए. रेड्डी, अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय, को तदर्थ आधार पर, 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में, दिनांक 14.06.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-I, चेन्नई में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. ए-19014/11/2007-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री संजीव कुमार सुराना, लेखापरीक्षा अधिकारी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय, को तदर्थ आधार पर 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में, दिनांक 25.05.2007 (अपराह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर में सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. ए-19014/4/2007-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री बिभास गंगुली, स्थानीय निकायों के उप निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, को तदर्थ आधार पर, 12,750-375-16,500 रुपये के वेतनमान में, दिनांक 01.06.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II, कोलकाता में सचिव/पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19014/9/2007-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री आशुतोष मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, को तदर्थ आधार पर, 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में, दिनांक 26.06.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, कटक में सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19014/15/2007-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री पी. नागराजन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, को तदर्थ आधार पर, 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में, दिनांक 18.06.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-III, चेन्नई में सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19014/26/2007-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री राज कुमार बंसल, वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब एंड सिंध बैंक, को तदर्थ आधार पर, 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में, दिनांक 31.05.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2007

सं. ए-19011/254/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री पार्थ प्रतीम मित्रा (आई ई एस : 79), आर्थिक सलाहकार को दिनांक 31 अगस्त, 2007 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 4/24/2006-ईओ (एसएम.1) के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण के लिए राष्ट्रीय आयोग में संयुक्त सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से 19 सितम्बर, 2007 (पूर्वाह्न) से उन्हें कार्यमुक्त करते हैं।

एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील्य प्राधिकरण

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 18 सितम्बर 2007

सं. 1/1/2004-प्रशा.--इस प्राधिकरण की दिनांक 06 सितम्बर 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में रक्षा मंत्रालय/मु.प्र.अधि. कार्यालय में स्थायी सहायक श्री बी. एन. झा की 6,500-200-10,500 रुपए प्रतिमाह के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्व निबन्धनों और शर्तों सहित दिनांक 01.09.2007 पूर्वाह्न से अगले वर्ष दिनांक 31.08.2008 तक या अगले आदेश तक या इस प्राधिकरण की समाप्ति तक, जो भी पूर्व घटित हो, बढ़ा दी गई है। इसे रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ए/47952/अवधि/सहायक/07/सी.ए.ओ./पी-1 दिनांक 12.09.2007 द्वारा सहमति प्रदान करते पर जारी किया गया है।

हनवन्त किशोर, अवर सचिव

ऋण वसूली अधिकरण

अहमदाबाद-380 014, दिनांक 3 सितम्बर 2007

सं. डीआरटीआई/एचडी/एडीएम-1/07/1031--अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या डीआरटी/एडीएम/2007-08/711 दिनांक

29.06.2007 द्वारा श्री एस. जे. वाघेला को पीठासीन अधिकारी के निजी सचिव के पद पर वेतनमान 6,500-200-10,500 में पदोन्नत किया गया है। श्री वाघेला ने निजी सचिव के पद पर दिनांक 01.04.2007 से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इसी तरह से श्री बी. पी. जोशी को कार्यालय आदेश संख्या डीआरटी-1/एचडी/एडीएम-1/00/07-08/875 दिनांक 31.07.2007 द्वारा अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान 6,500-200-10,500 में पदोन्नत किया गया है। श्री जोशी ने दिनांक 01.08.2007 को अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. टी. महाडिक, पीठासीन अधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2007

सं. ए-32013/1/2006/मा.सं.वि.1/4511--राष्ट्रपति, भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी श्री बी. आर. कावत को पदोन्नति पर विदेश व्यापार महानिदेशालय में अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के पद पर 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में उनके अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार का पदभार संभालने की तारीख से नियुक्त करते हैं।

अदिति दास राऊत, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 26 सितम्बर 2007

सं. 6/401/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री ए. के. कौशिक, आईए एंड एस (95) को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में दिनांक 22 मई, 2007 के पूर्वाह्न से 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर उप-सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

मोहन लाल, अवर सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 3 सितम्बर 2007

सं. ए-12011/06/2002-स्था.--इस विभाग की दिनांक 14 अगस्त, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना को जारी रखते हुए राष्ट्रपति, श्री के. के. दास, कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) की इस विभाग में नियुक्ति की अवधि को तदर्थ आधार पर 6,500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में 19 अगस्त, 2007 के अपराह्न से या अगले आदेश निर्गमित किए जाने पर्यन्त, जो भी इससे पहले हो, तत्काल प्रभाव से आगे के एक वर्ष के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. ए-32011/02/2007-स्था.--राष्ट्रपति, इस विभाग की डा. (श्रीमती) बिन्दु डे वैज्ञानिक "एफ" को 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में स्वस्थान (इन सीटू) पदोन्नति पर सुलभशील अनुपूरक योजना के अंतर्गत 30 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से लागू और आगामी आदेशों के निर्गमित किए जाने पर्यन्त वैज्ञानिक "जी" स्वरूप सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. अग्रवाल, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 19 सितम्बर 2007

सं. 17016/19/97-आई एफ एस-II--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार की सहमति से सक्षम प्राधिकारी श्री ओ.वी.आर. रेड्डी, भारतीय वन सेवा (एग्मुट) की एग्मुट संवर्ग से आंध्र प्रदेश संवर्ग में अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति को संबंधित अधिकारी द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए अनुमोदित करते हैं।

सी. मुरलीधर राव, निदेशक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2007

सं. ए. 12025/28/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. निताशा गुप्ता को दिनांक 20.7.2007 की पूर्वाह्न से अस्थायी आधार पर 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में नियुक्त करते हैं। डॉ. निताशा गुप्ता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के तहत चिकित्साधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। वह दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 25 सितम्बर 2007

सं. ए. 12025/64/2006-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. दीपंकर दासगुप्त को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में 10.4.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. दीपंकर दासगुप्त को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डा. दीपंकर दासगुप्त दो वर्षों की परिवीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. ए-22012/2/2007-स्थापना-III--सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 01.08.2007 के कार्यालय आदेश सं. 12016/8/एनएफएसजी/06.07.2007-आईएसएस के अनुसरण में श्री राजेश्वर प्रसाद, संयुक्त निदेशक की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दिनांक 29.11.2006 (पूर्वाह्न) से 14,300-400-18,300 रुपए के वेतनमान में नॉन फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड में (एनएफएसजी) पदोन्नति की जाती है।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

दिनांक 19 सितम्बर 2007

सं. ए-32013/8/2005-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अगस्त, 2007 के आदेश सं. 5/2/2006-सी एस-I (डेस्क) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2001 एवं 2002 की चयन सूची में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप उन्हें उनके सामने दर्शाई गई तारीखों से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में एतद्वारा नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है :-

1.	श्री मोहन लाल वर्मा	01.07.2001
2.	श्री वे. के. रील	01.07.2001
3.	श्री एल. एल. कमसून	01.07.2002
4.	श्री बी. सी. गुप्ता	01.07.2002
5.	श्री एन. एस. बेदी	01.07.2002
6.	श्री एन. सत्यम	01.07.2002
7.	श्री आर. के. जैन	01.07.2002
8.	श्री ए. के. सिंह	01.07.2002
9.	श्रीमती माया प्रकाश	01.07.2002

अवर सचिव के ग्रेड में अधिकारियों की नियमित आधार पर नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका सं. 3269/2003, सिविल रिट याचिका सं. 3912/2003 तथा सिविल रिट याचिका सं. 13352/2005 के अंतिम निर्णय के अध्येधीन होगी।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 27 सितम्बर 2007

सं. 4-1/2006-मात्स्यिकी प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री जी. गणेशन, वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषक को केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर में 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में 14.09.2007 (पूर्वाह्न) से सहायक निदेशक (आर्थिक) श्रेणी "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. 4-4/2005-प्रशासन--अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने पर श्री एन. पी. गुप्ता, भा. प्र. से. (तमिलनाडु : 72), सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग दिनांक 31.8.2007 से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

महेश अरोड़ा, निदेशक (प्रशा.)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. 22-21/2002-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री समीरन्द्र चटर्जी, भा.प्र.से. (असम : 76) को 22,400-525-24,500 रुपए के वेतनमान में दिनांक 10.09.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक अपर सचिव के रैंक में राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य-सचिव नियुक्त करते हैं।

राजेश शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 18 सितम्बर 2007

सं. 27-1/2007-प्रशासन--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री बी. एल. मीणा का नाम वर्ष 2002 की चयनसूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 01.07.2002 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत अवर सचिव (ग्रेड-1) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। यह नियमित नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका सं. 3269/2003, 3912/2003 तथा 13352/2005 के अंतिम फैसले के अधधीन होगी।

यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.8.2007 के का. ज्ञा. सं. 5/2/2006-सी.एस. I (डेस्क) के अनुसरण में जारी किया गया है।

राजेश शर्मा, अवर सचिव

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 26 सितम्बर 2007

सं. 4333/एनआईसी/2007-प्रशासन-II--केन्द्रीय सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965, के नियम 15(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती अर्चना शर्मा, वैज्ञानिक "बी" (कर्मचारी कोड सं. 4333) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र की सेवाओं से दिनांक 03.09.2007 से हटाया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उप निदेशक (प्रशासन-II)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. पीएफ/2437/एनआईसी/2007-प्रशासन-I--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा, श्री राजेश कुमार गुण्डु, (कर्मचारी कोड

सं. 2437) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-मुख्यालय, नई दिल्ली से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड "एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 5 फरवरी, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/58/एनआईसी/2007-प्रशासन-I--श्री के. जी. नायर, निदेशक (कर्मचारी कोड सं. 0058) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 30 सितम्बर, 2007 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त हुए हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (प्रशासन-I)

सं. पीएफ/4407/एनआईसी/2007-प्रशासन-I--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री आशा राम रहर, (कर्मचारी कोड सं. 4407), का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-मुख्यालय, नई दिल्ली से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 29 नवम्बर, 1998 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (प्रशासन-I)

## रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2007

सं. ई(जी.पी.)2004/1/57--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के लेखा विभाग के निम्नलिखित 2 ग्रुप-बी अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 26.4.2007 से भारतीय रेल लेखा सेवा (आई.आर.ए.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं :-

2006-2007 के लिए पैनल

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम
	सर्व श्री
	उत्तर रेलवे
1.	वी. के. जैसवाल (रे.प.का.के.)
	दक्षिण रेलवे
1.	ए. गोविन्दराजन

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2007

शुद्धिपत्र

सं. 96/स्था.(राज.भ)1/6/1--रेलवे बोर्ड की दिनांक 20.09.2000 की अधिसूचना सं. 96/स्था.(राज.भ)1/6/1 में उल्लिखित श्री अमिताभ सिंघल के नाम के आग से अनंतिम शब्द हो हटा दिया जाए।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था. (जी आर)

## शुद्धिपत्र

सं. 2000/स्था.(राज.भ)I/6/1--रेलवे बोर्ड की दिनांक 6.1.2003 की अधिसूचना सं. 2000/स्था.(राज.भ)I/6/1 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के आगे से अनंतिम शब्द हो हटा दिया जाए :--

सर्वश्री

1. अशोक कुमार वर्मा
2. रवि प्रकाश भारती

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था. (जी आर)

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत-परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2007

सं. ए-12026/3/06-एम ए--राष्ट्रपति, श्री सैमुएल डार्से, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 89) को 11.07.2007 (पूर्वाह्न) से, पांच वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई के कार्यालय में निदेशक के स्तर में उप महानिदेशक (विधि) के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ त्रिपाठी, उप सचिव

दिनांक 21 सितम्बर 2007

सं. ए-12025/1/06-एम ए--राष्ट्रपति, श्री सुरेश कुमार आर. एम., पोत-सर्वेक्षक को 23 अगस्त, 2007 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में उप मुख्य जलयान सर्वेक्षक-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

रघुनाथ त्रिपाठी, उप सचिव

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. ए-11019/1/2004-स्था.--राष्ट्रपति, श्री ए. के. तिवारी को पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में 12,000-375-16,500 रु. के वेतनमान में दिनांक 03.09.2007 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर उप सचिव (सी. एस. एस. की चयन श्रेणी) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति इन शर्तों पर की जाती है कि तदर्थ प्रोन्नति बिना सीमा के इस ग्रेड में जारी रहने का अधिकार नहीं देती एवं नियमित नियुक्ति की चयन सूची में समावेश एवं चयन ग्रेड में वरिष्ठता संबंधी दावा नहीं किया जाएगा और तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी कारण समाप्त की जा सकती है।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2007

सं. ए-12022/4/2007-ई-1--राष्ट्रपति, श्री अजय सहगल, आई.एफ. एस. (उ.प्र. : 86) को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर 14,300-400-18,300 रु. के वेतनमान में निदेशक के पद पर दिनांक 03.09.2007 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेंद्रन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2007

सं. 31/2007-मि.सं.ए.-38012/1/2007-प्रशा.एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी, भारत सरकार की सेवा से 31 अगस्त, 2007 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं :--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम
1.	श्री पी. के. रामाकृष्णन	मुख्य अभियन्ता
2.	श्री ए. न. गोपीनाथन	निदेशक

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 32/2007-मि.सं.ए.-38012/1/2007-प्रशा.एक--राष्ट्रपति, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता के ग्रेड में 10 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 27 सितम्बर 2007

सं. 33/2007-फाईल सं. ए-32013/2/2006-प्रशा.1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक/अधीक्षण इंजीनियर) रु. 14300-400-18300 के वेतनमान में, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेश जारी होने तक के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्रम	नाम	नियुक्ति की तारीख
सं.		
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	ए. एन. गोपीनाथन	16.06.2006 (पूर्वाह्न)
2.	एस. सी. नकरा	16.06.2006 (पूर्वाह्न)
3.	आर. के. अग्रवाल-II	16.06.2006 (पूर्वाह्न)

1	2	3
4.	दिनेश चन्द्रा	03.07.2006 (पूर्वाह)
5.	टी. के. साहा	15.09.2006 (पूर्वाह)
6.	चन्द्र शेखर	14.11.2006 (पूर्वाह)
7.	जानकी प्रसाद	07.08.2007 (पूर्वाह)
8.	कांति प्रसाद	21.12.2006 (पूर्वाह)
9.	एस. के. भट्टाचार्य	05.02.2007 (अपराह)

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

#### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2007

सं. 704/14/2006-बी (डी)--राष्ट्रपति, लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा श्री हरकेश गुप्ता, निदेशक (ओ एंड एम), मै. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) का चयन किए जाने के फलस्वरूप उन्हें बेसिल जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक के पद पर दिनांक 01.09.2007 (पूर्वाह) से 22,500-27,300 के वेतनमान में पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

गिरीश चंद, अवर सचिव

#### श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2007

सं. ए-32012/02/2005-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, श्री ए. एस. सिंह को 07.08.2007 (पूर्वाह) से एवं अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में विधि अधिकारी ग्रेड-I के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. एस. आजाद, अवर सचिव

सं. ए-32012/09/2006-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, श्री आर. रामाचंदीरन को 13.09.2007 (पूर्वाह) से एवं अगले आदेशों तक खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में उप-महानिदेशक खान सुरक्षा (इलैक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. एस. आजाद, अवर सचिव

सं. ए-32012/10/2006-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, श्री एस. के. तालुकदार को 17.09.2007 (पूर्वाह) से एवं अगले आदेशों तक खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में खान सुरक्षा निदेशक (इलैक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. एस. आजाद, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 24th September 2007

No. A-22017/04/2007-PMA—Sh. Ashish Kumar Singh, IAS, (MAH : 88) has relinquished the charge of the post of Private Secretary to Minister of State in the Prime Minister's Office [Shri Prithviraj Chavan] with effect from the afternoon of 30 August 2007 on his proceeding on long term foreign training programme 'MA in Public Service' at the University of Syracuse, USA.

P. K. ROY, Dy. Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st October 2007

No. RS. 3(xi)/2007/101-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Hem Lata Atri, Assistant Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (E&T) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad-hoc basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders.

2. Shri R. V. Sharma, who was earlier appointed to officiate as Deputy Director (E&T) on ad-hoc *vide* Notification No. RS. 3(xi)/2007/87-Perl. dated 1st August, 2007, has now been appointed on a regular basis in that grade with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Dir.

No. RS. 3(xi)/2007/109-Perl.—Shri Brijesh Kumar Tyagi, who was earlier appointed to officiate as Editor on adhoc basis *vide* Notification No. RS. 3(xi)/2007/77-Perl. dated 16th July, 2007, has now been appointed on a regular basis in that grade with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Dir.

No. RS./1364/Estt. (P)—On attaining the age of superannuation, Shri Ram Prakash Khara, Joint Director (E&T) retired from service with effect from the afternoon of the 30th September, 2007.

C. B. RAI, Jt. Dir.

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd March 2007

No. PF. 1236 (3)/GN-5808/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Secretaries Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750—16,500/- who were appointed as Director on ad-hoc basis *vide* Notification Nos. GN-5615 dated 23rd February, 2006 and GN-5734 dated 12th October, 2006 respectively, to the grade of Director in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- on regular basis,

in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. Gopal Singh
2. Sh. R. S. Misra

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1024(3)/GM-5809/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Secretaries Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750—16,500/- to the grade of Director in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. P. D. Malvalia
2. Sh. Hardev Singh
3. Sh. R. K. Saxena
4. Sh. R. S. Kambo
5. Smt. Sudesh Luthra

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2086(3)/GN-5810/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Secretaries Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750—16,500/- to the grade of Director in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/-, in the order as shown below, with effect from 3rd March, 2007 until further orders :—

1. Sh. Abhijit Kumar
2. Smt. Anita Jain
3. Sh. Rajeev Sharma
4. Sh. Surender Singh
5. Sh. B. D. Swan
6. Sh. R. K. Bajaj

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2022(3)/GN-5811/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Secretaries Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- to the grade of Deputy Secretary Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. K. L. Arora
2. Sh. J. S. Chauhan
3. Sh. K. D. Muley
4. Sh. Shiv Singh
5. Sh. B. S. Dahiya



6. Sh. P.V.L.N. Murthy
7. Sh. Ashok Balwani\*
8. Sh. Bhupesh Kumar
9. Km. J. C. Namchoy
10. Sh. P. C. Koul
11. Smt. Neera Singh
12. Sh. N. S. Hooda
13. Smt. Abha Singh Yaduvanshi
14. Sh. Shiv Kumar
15. Sh. U. B. S. Negi
16. Sh. Ravindra Garimella
17. Sh. N. C. Gupta
18. Sh. S. C. Kaliraman
19. Sh. B. Srinivasa Prabhu
20. Sh. D. S. Malha
21. Sh. R. C. Tiwari
22. Sh. T. G. Chandrasekhar
23. Smt. Anita B. Panda
24. Sh. Pawan Kumar

\*Retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 28th February, 2007.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1400(3)/GN-5812/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Shri Jagdish Prasad, Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- who was appointed as Under Secretary (revised designation—Deputy Secretary Grade-II) on *ad hoc* basis *vide* Notification No. GN-5788 dated 29th January, 2007, to the grade of Deputy Secretary Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis with effect from 28th February, 2007 until further orders.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1285(3)/GN-5813/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Under Secretaries in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Deputy Secretary Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Smt. Manju Chowdhary
2. Sh. V. P. Goel
3. Sh. R. C. Jain
4. Sh. R. D. Silawat
5. Smt. S. K. Johar

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1529(3)/GN-5814/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Under Secretaries in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Deputy Secretary Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 3rd March, 2007 until further orders :—

1. Sh. Hoti Lal
2. Sh. A. K. Kaushik
3. Sh. A. K. Munshi
4. Sh. R. S. Panwar
5. Smt. Gurjeet Kaur Bhumbrao
6. Sh. H. R. Kamboj
7. Sh. Lovekesh Kumar Sharma
8. Sh. Kishan Chand
9. Sh. A. K. Srivastava
10. Sh. Jaya Kumar, T.
11. Sh. T. S. Rangarajan
12. Smt. Nirmala Abhichandani
13. Sh. Hulasi Ram
14. Sh. Harish Chander-II
15. Sh. Rajesh Ranjan Kumar
16. Sh. Raju Srivastava

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1339(3)/GN-5815/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- who were appointed as Assistant Director (revised designation—Under Secretary) on *ad hoc* basis *vide* Notification No. GN-5791 dated 29th January, 2007, to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Smt. Saroj Sharma
2. Sh. G. C. Chhabra

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1356(3)/GN-5816/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Smt. Kamlesh Pahwa
2. Sh. V. P. Gupta
3. Sh. R. K. Bhatnagar

4. Sh. R. C. Bhardwaj
5. Smt. Punam Sharma
6. Smt. Kiran Lata Nandwani
7. Sh. V. K. Gupta
8. Sh. T. H. Rao
9. Smt. Kamlesh Matta
10. Sh. Arvind Sharma
11. Smt. B. Visala
12. Sh. Ramesh Lal
13. Smt. Maya Lingi
14. Sh. J. K. Jain
15. Smt. Surinder Marwaha
16. Sh. H. Ram Prakash
17. Smt. Sunita
18. Sh. Bishamber Dayal
19. Sh. M. L. K. Raja
20. Sh. Tirlok Chand
21. Sh. Ram Kishan
22. Ms. Amrita Walia

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2397(3)/GN-5817/AN-I/2007—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Shri Sanjeev Kumar Mishra, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- presently on deputation to All India Institute of Medical Sciences, to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 28th February, 2007 until further orders. He will rank junior to Smt. B. Visala in the grade of Under Secretary.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2510(3)/GN-5818/AN-I/2007—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Shri Satya Prakash, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/-, presently on deputation to Debts Recovery Tribunal-I, Delhi, to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 28th February, 2007 until further orders. He will rank senior to Ms. Amrita Walia but junior to Shri Ram Kishan in the grade of Under Secretary.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 3824(3)/GN-5819/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- to the grade of Under Secretary in the scale of pay

of Rs. 10,000-325-15,200/- on adhoc basis with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Smt. Jyochanamayi Sinha
2. Sh. Lalkithang
3. Sh. Sundar Prasad Das
4. Smt. Meenakshi Sharma

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1848(3)/GN-5820/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Shri Ajit Kumar Yadav, Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistant in the scale of pay of Rs. 7,450—11,500/-, who was appointed as Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on adhoc basis vide Notification No. GN-5677 dated 22nd June, 2006, to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis, in an officiating capacity, with effect from 28th February, 2007 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of two years with effect from 28th February, 2007 upto 27th February, 2009.

3. His *inter-se* seniority in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1823(3)/GN-5821/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors (LARRDIS) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750—16,500/- to the grade of Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. Frank Christopher
2. Dr. V. K. Bhamagar
3. Sh. A. K. Lad
4. Sh. K. B. Tewari
5. Sh. N. K. R. Kalingan
6. Sh. Ashok Kumar

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1968(3)/GN-5822/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors (LARRDIS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- to the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Smt. Kanta Pandit
2. Smt. Asha Wangnoo
3. Smt. Meena Malla
4. Sh. R. L. Shali

5. Dr. R. N. Das.
6. Sh. K. K. Dutta
7. Smt. Swapna Bose
8. Sh. C. B. Nagpal
9. Km. Saroj Bala
10. Sh. C. N. Sathyanathan
11. Sh. J. C. Sharma

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1394(3)/GN-5823/AN-I/2007—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Shri U. K. Mitra, Joint Director (LARRDIS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/-, presently on deputation in the personal staff of Minister of State for Petroleum & Natural Gas, to the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- with effect from 28th February, 2007 until further orders. He will rank senior to Smt. Meena Malla but junior to Smt. Asha Wangnoo in the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-I.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2091(3)/GN-5824/AN-I/2007—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Dr. D. K. Singh, Joint Director (LARRDIS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/-, presently on deputation in the personal staff of Minister of Agriculture, to the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- with effect from 28th February, 2007 until further orders. He will rank senior to Dr. R. N. Das but junior to Shri R. L. Shali in the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-I.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1893(3)/GN-5825/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors (LARRDIS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- to the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- on adhoc basis with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Shri V. K. Mittal
2. Smt. Usha Mathur

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2322(3)/GN-5826/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Dr. B. C. Joshi, Deputy Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- who was appointed as Deputy Director (LARRDIS) [revised designation—Joint Director (LARRDIS) Grade-II] on adhoc basis vide Notification No. GN-5626 dated 2nd March, 2006, to the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-II in the

scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis with effect from 28th February, 2007 until further orders.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2311(3)/GN-5827/AN-I/2007—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Dr. P. J. Antony, Deputy Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- presently on deputation as OSD (Res. & Inf.) to Hon'ble Speaker, Lok Sabha, who was granted proforma promotion as Deputy Director (LARRDIS) [revised designation—Joint Director (LARRDIS) Grade-II] on adhoc basis vide Notification No. GN-5770 dated 20th December, 2006, to the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis with effect from 28th February, 2007 until further orders. He will rank senior to Shri Pulin B. Bhutia but junior to Dr. B. C. Joshi in the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-II.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2318(3)/GN-5828/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Directors (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. Pulin B. Bhutia
2. Sh. Harsh Chaturvedi
3. Smt. Sushma Rungta
4. Sh. Pradosh Panda
5. Dr. Jayadev Sahu
6. Sh. B. Phani Kumar
7. Smt. Neelam Sethi
8. Sh. R. K. Thakur
9. Smt. Parma Chatterjee

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2498(3)/GN-5829/AN-I/2007—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Shri Naushad Alam, Deputy Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-, presently on deputation in the personal staff of Minister of State (Independent Charge) for Women and Child Development, to the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 28th February, 2007 until further orders. He will rank senior to Shri B. Phani Kumar but junior to Dr. Jayadev Sahu in the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-II.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2343(3)/GN-5830/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Smt. Sunanda Das Mohanty, Deputy Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 3rd March, 2007 until further orders.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1973(3)/GN-5831/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Smt. Sunita Bhalla, Deputy Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Joint Director (LARRDIS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on *ad-hoc* basis with effect from 28th February, 2007 until further orders.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 3643(3)/GN-5832/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Research/Reference Officers in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- who were appointed as Assistant Director (LARRDIS) [revised designation—Deputy Director (LARRDIS)] on *ad-hoc* basis vide Notification No. GN-5491 dated 28th June, 2005, to the grade of Deputy Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. Mukesh Kumar Sharma
2. Sh. Sanjay Kumar

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2723(3)/GN-5833/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Research/Reference Officers in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- who were appointed as Assistant Director (LARRDIS) {(revised designation—Deputy Director (LARRDIS))} on *ad-hoc* basis vide Notification Nos. GN-5569 dated 11th November, 2005 and GN-5772 dated 20th December, 2006 respectively, to the grade of Deputy Director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Dr. Ranbir Kumar
2. Smt. Musarrat Naushad

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2725(3)/GN-5834/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Research/Reference Officers in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- to the grade of

Deputy director (LARRDIS) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. Sanjeev Sachdeva
2. Smt. Shanta Verma
3. Dr. (Smt.) Seema Kaul Singh
4. Smt. Rachna Sharma
5. Dr. Deepak Gosain
6. Shri Shashikant Bahirat
7. Sh. Prasanta Kumar Mallick
8. Sh. Babulal Naik
9. Smt. Indu Goel
10. Sh. Raj Kumar

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2170(3)/GN-5835/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Shri Dalip Singh, Research/Reference Assistant in the scale of pay of Rs. 7,450—11,500/-, who was appointed as Research/Reference Officer on *ad-hoc* basis vide Notification No. GN-5596 dated 30th December, 2005, to the grade of Research/Reference Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis, in an officiating capacity, with effect from 28th February, 2007 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Research/Reference Officer for a period of two years with effect from 28th February, 2007 upto 27th February, 2009.

3. His *inter-se* seniority in the grade of Research/Reference Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1715(3)/GN-5836/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors (Translation) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- to the grade of Joint Director (Translation) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. Jagmohan Swaroop Vatsa
2. Smt. Vandana Trivedi
3. Smt. Kamla Sharma
4. Sh. Devendra Kumar
5. Sh. Parmesh Kumar Sharma
6. Sh. Ved Prakash Sharma-I

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1941(3)/GN-5837/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Editors in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Joint Director (Translation) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. J. C. Sharma
2. Sh. J. B. Sharma
3. Sh. S. C. Kale
4. Sh. R. L. Raina
5. Km. Usha Jain
6. Sh. P. C. Dutta

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2144(3)/GN-5838/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint Smt. Vijay Kumari, Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- who was appointed as Editor on *ad hoc* basis vide Notification No. GN-5739 dated 12th October, 2006, to the grade of Editor in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis with effect from 28th February, 2007 until further orders.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2168(3)/GN-5839/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Assistant Editors in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- to the grade of Editor in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. V. K. Kaushik
2. Sh. Ashit Bhushan
3. Sh. A. K. Sinha
4. Smt. Kaveri Jeswal
5. Sh. Sanjay Srivastava

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2285(3)/GN-5840/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint Shri Rajeev Sharma, Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- to the grade of Editor in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on *ad hoc* basis with effect from 28th February, 2007 until further orders.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2127(3)/GN-5841/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint Smt. Kirti Yadav, Translator in the scale of pay of Rs. 7,450—11,500/-, who was appointed as Assistant Editor on *ad hoc* basis vide Notification No. GN-

5404 dated 5th March, 2005, to the grade of Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis, in an officiating capacity, with effect from 28th February, 2007 until further orders.

2. She will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of two years with effect from 28th February, 2007 upto 27th February, 2009.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2613(3)/GN-5842/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Translators in the scale of pay of Rs. 7,450—11,500/- to the grade of Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Smt. Sunita Arora
2. Smt. Sunita Thapliyal
3. Sh. Virender Singh Rawat
4. Sh. Rajendra Kumar Sharma
5. Ms. Renu Bala Sudan
6. Sh. Yogendra Kumar
7. Sh. Har Singh

2. They will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of two years with effect from 28th February, 2007 upto 27th February, 2009.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1914(3)/GN-5843/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors (Reporting) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- to the grade of Joint Director (Reporting) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. N. K. Rastogi
2. Sh. H. N. Gupta
3. Sh. P. Kulasekharan
4. Smt. Achla Malhotra
5. Sh. K. Srinivasan

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2280(3)/GN-5844/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Parliamentary Reporters Grade-I in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- who were appointed as Parliamentary Reporter Grade-I [revised designation—Joint Director (Reporting) Grade-II] on *ad hoc* basis vide Notification Nos. GN-5648 dated 18th May, 2006 and GN-5660 dated 30th May, 2006 respectively, to the

grade of Joint Director (Reporting) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Smt. Aruna Srivastava
2. Sh. R. Baskaran

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2193(3)/GN-5845/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Parliamentary Reporters Grade-I in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Joint Director (Reporting) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. K. K. Dhingra
2. Sh. R. C. Gossain
3. Sh. K. M. Rao

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2928(3)/GN-5846/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Parliamentary Reporters Grade-I in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Joint Director (Reporting) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on adhoc basis with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. Muthiah Mohan
2. Sh. Somnath Banerjee
3. Sh. S. Prabhakar

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1164(3)/GN-5847/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint Shri Vinod Kumar, Joint Director (PSS) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750—16,500/-, who was appointed as Chief Principal Private Secretary [revised designation—Director (PSS)] on adhoc basis vide Notification Nos. GN-5437 dated 19th April, 2005, to the grade of Director (PSS) in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- on regular basis with effect from 28th February, 2007 until further orders.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1125(3)/GN-5848/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors (PSS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- to the grade of Joint Director (PSS) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. B. L. Hemrajani
2. Smt. N. K. Kamala Raman
3. Shri S. C. Sharma

4. Smt. Sarojini Hingorani
5. Smt. Asha Sood

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1480(3)/GN-5849/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Private Secretaries in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Joint Director (PSS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Smt. Madhu Taneja
2. Smt. Gajinder Pal Kaur
3. Smt. Pratibha Mehrotra
4. Smt. Harvinder Kaur Khandari
5. Sh. K. P. Garg
6. Sh. Suresh Chandra

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1916(3)/GN-5850/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Personal Assistants in the scale of pay of Rs. 7,450—11,500/- to the grade of Private Secretary in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Smt. Shashi Pahwa
2. Smt. Sunita Arora

2. They will be on probation in the grade of Private Secretary for a period of two years with effect from 28th February, 2007 upto 27th February, 2009.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 1825(3)/GN-5851/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors (Interpretation) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- to the grade of Joint Director (Interpretation) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Smt. Shimla
2. Sh. Rakesh Lakhanpal
3. Sh. K. John Irudaya Sunder

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 3130(3)/GN-5852/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Parliamentary Interpreters

Grade-I in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Joint Director (Interpretation) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. Atul Anand
2. Sh. Dachhbanta Samom
3. Km. Shiv Mogha

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2437(3)/GN-5853/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Printing Assistants in the scale of pay of Rs. 7,450—11,500/- to the grade of Manager of Printing in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. N. K. Dhyani
2. Sh. Satish Chander

2. They will be on probation in the grade of Manager of Printing for a period of two years with effect from 28th February, 2007 upto 27th February, 2009.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 2425(3)/GN-5854/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Security Assistants in the scale of pay of Rs. 7,450—11,500/- who were appointed as Security Officer on adhoc basis vide Notification Nos. GN-5721 dated 30th August, 2006 and GN-5777 dated 20th December, 2006 respectively, to the grade of Security Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis, in an officiating capacity, in the order as shown below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. R. K. Purnavi
2. Sh. B. P. Raturi
3. Smt. Deepika Bhalla

2. They will be on probation in the grade of Security Officer for a period of two years with effect from 28th February, 2007 upto 27th February, 2009.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 688(3)/GN-5855/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Security Assistants in the scale of pay of Rs. 7,450—11,500/- to the grade of Security Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-, in an officiating capacity, in the order as shown

below, with effect from 28th February, 2007 until further orders :—

1. Sh. Rajinder Singh
2. Sh. Dhan Singh
3. Sh. S. S. Sangwan

2. They will be on probation in the grade of Security Officer for a period of two years with effect from 28th February, 2007 upto 27th February, 2009.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

No. PF. 546(3)/GN-5856/AN-I/2007.—The Speaker is pleased to appoint Shri S. P. Baunthiyal, Senior Security Assistant in the scale of pay of Rs. 7,450—11,500/- to the grade of Security Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on adhoc basis with effect from 28th February, 2007 until further orders.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

#### DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 11th August 2007

No. 4/2/3/2003-V(IV) (Vol.V).—The President is pleased to dismiss from Service Dr. V.R. Sanal Kumar, Scientist/Engineer 'SD' (under suspension), Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the forenoon of September 1, 2003 vide Order of even number dated August 11, 2007.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 15th September 2007

No. A-12025/01/2005-Admn. II.—The President is pleased to appoint Smt. Surekha Soni, Statistical Investigator, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-, on purely adhoc deputation basis, for a period of one year with effect from 13.09.2007(FN) to 12.09.2008 (AN) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

N. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 26th September 2007

No. A-43011/16/2006-Adm. I.—Consequent on his transfer to the Ministry of Defence vide Department of Personnel and Training's Order No. 5/18/2007-CS. I (Desk) dated 14th September, 2007, Shri Prem Parkash, CSS, Under Secretary, Planning Commission is relieved of his duties in this Commission w.e.f. the afternoon of 26.09.2007 with the direction to report to the Ministry of Defence to take up his new assignment.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 24th September 2007

No. A-32014/2/2005-Admn. I (L.D.).—On the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the competent authority in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice is pleased to appoint Shri T. S. Muralidharan, Assistant (Legal) to officiate as Superintendent (Legal) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in the said Department of Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of the 24th September, 2007 and until further orders.

K. V. KUMAR, Assistant Legislative Counsel &  
Branch Officer (Admn. I)

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 27th September 2007

No. A-12023/7/2000-Admn. III (LA).—On attaining the age of 62 years, Shri K. K. Boliya, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal stands retired on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 1st September, 2007 in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

YASHWANT SINGH, Dy. Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 3rd October 2007

No. I-14012/13/2007-IPS. IV.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Pradeep Virk, IPS Probationer of 59 RR Batch (Manipur-Tripura : 2006), who was appointed to the Indian Police Service on the basis of his qualifying the Civil Services Examination, 2005, from the Indian Police Service with effect from the 11th July, 2007.

RAJINDER KUMAR, Section Officer

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL &amp; TRAINING)

New Delhi-110001, the 26th September 2007

No. 24012/14/2007-AIS-II.—The President is pleased to accept the resignation of Dr. Anshu Bhardwaj, IAS (KTK : 92), a member of the Indian Administrative Service, borne on the cadre of Karnataka, with effect from the date of issue of the notification.

CHAITANYA PRASAD, Dir. (Services)

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 25th September 2007

No. Q/PA-I/43/2007.—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the Service with effect from the forenoon of September 1, 2007 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade After Promotion
1.	Sh. Talmiz Ahmad	Grade-II of IFS	Grade-I of IFS

2. On promotion to Grade-I of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-II of IFS on the forenoon of 01.09.2007 and assumed charge of the post in Grade-I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 14th September 2007

No. D. III/460/CF-32/2007.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Mao Siwei as Consul General of the People's Republic of China in Kolkata.

The consular jurisdiction of Mr. Mao Siwei consist of the State of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa and West Bengal with the seat in Kolkata.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

## MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 14th September 2007

No. A-12011/08/2007-Admn. II.—In pursuance of Department of Expenditure (CAS)'s O. M. No. 32014/3/2007-CAS dated 13.09.2007, the President is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar Sood and Smt. Latha Ramachandran, regular Stenographers Grade "C" of the the cadre of Ministry of Finance as Steno Grade A&B (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on *ad hoc* basis w.e.f. 13.09.2007 (AN) initially for the period upto 31.12.2007.

2. The *ad hoc* appointment of Shri Rakesh Kumar Sood and Smt. Latha Ramachandran as Stenographer Grade 'A&B' (merged) (designated as PS) will be subject to the following terms and conditions :—

1. The *ad hoc* appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (merged) (P.S.) of CSSS;



2. *Adhoc* appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

#### CORRIGENDUM

No. A-19011/14/2007-Admn. II.—In partial modification of this Department's notification of even number dated 1.8.2007 *inter-alia* appointment of Shri Anurag Rohatagi, (CSL No. 5470-A) as Under Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, his name may be spelt as Shri ANURAG ROHATGI.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 6th September 2007

No. A-19014/27/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Surinder Singh Kalra, Senior Manager, Punjab & Sind Bank to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 06.06.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-19014/28/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri G. A. Reddy, Under Secretary, Ministry of Power to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-I, Chennai on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 14.06.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 7th September 2007

No. A-19014/11/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Sanjiv Kumar Surana, Audit Officer, office of the Comptroller and Auditor General of India to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal, Jaipur on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 25.05.2007 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 10th September 2007

No. A-19014/4/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Bibhas Ganguli, Deputy Director of Local Bodies, Government of West Bengal to the post of Secretary/Registrar in the Debts Recovery Tribunal-II, Kolkata on deputation basis, in the pay scale of Rs. 12,750-

375-16,500/- for a period of three years w.e.f. 01.06.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-19014/9/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Ashutosh Mishra, Administrative Officer, Indian Bureau of Mines, Nagpur to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal, Cuttack on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 26.06.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-19014/15/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri P. Nagarajan, Assistant Administrative Officer, Indian Bureau of Mines, Nagpur to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal-III, Chennai on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 18.06.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-19014/26/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Raj Kumar Bansal, Senior Manager, Punjab & Sind Bank to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-I, Delhi on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 31.05.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, the 18th September 2007

No. A-19011/254/2005-Estt.—The President is pleased to relieve Shri Partha Pratim Mitra, (IES : 79), Economic Adviser from the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 19th September, 2007 consequent upon his appointment as Joint Secretary in the National Commission for Sub-Categorization of Scheduled Castes in Andhra Pradesh under the Ministry of Social Justice and Empowerment vide DOP&T's Communication No. 4/24/2006-EO(SM.I) dated 31st August, 2007.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

#### APPELLATE AUTHORITY FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi-110001, the 18th September 2007

No. 1/1/2004-Admn.—In continuation of this Authority's Notification of even number dated the 1.9.2004, 14.9.2005 & 06.09.2006 the term of deputation of Shri B. N. Jha, a pmt.

Assistant of the Ministry of Defence, AFHQ, as Section Officer in this Authority on deputation basis in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- is extended for a further period of one year w.e.f. 1.9.2007 (FN) to 31.8.2008 on the same terms and conditions. This issues with the concurrence of Ministry of Defence vide their letter No. A-47952/Extn./Astt/07/CAO/P-1 dated 12th September, 2007.

HANWANT KISHORE, Under Secy.

#### DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

Ahmedabad-380014, the 3rd September 2007

Ref. DRT-I/AHD/ADM-I/07/1031.—The undersigned was pleased to promote Shri S. J. Vaghela to the post of Private Secretary to the Presiding Officer in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- vide Office Order No. DRT/ADM/2007-08/711 dated 29.06.2007. Shri Vaghela has joined the post of Private Secretary, w.e.f. 01.04.2007. Similarly, Shri BP Joshi was also promoted to the post of Section Officer also in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- vide Office Order No. DRT-I/AHD/ADM-I/00/07-08/875 dated 31.07.2007. Shri Joshi has joined the post of Section Officer, w.e.f. 01.08.2007.

S. T. MAHADIK, Presiding Officer

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

##### DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 27th September 2007

F. No. A-32013/1/2006/HRD-I/4511.—The President is pleased to appoint on promotion Shri B. R. Kawat, Grade-I Officer of the Indian Trade Service to the post of Additional Director General of Foreign Trade in the Directorate General of Foreign Trade in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the date of his assumption of the charge of the post of Additional Director General of Foreign Trade.

ADITI DAS ROUT, Jt. Dir. General of Foreign Trade

#### MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi, the 26th September 2007

No. 6/401/2007-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Kaushik, IA & AS (95) to the post of Deputy Secretary in the Ministry of New and Renewable Energy on central deputation basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of the 22nd May, 2007.

MOHAN LAL, Under Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 3rd September 2007

No. A-12011/06/2002-Estt.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 14th August 2006, the President is pleased to extend the term of

appointment of Shri K. K. Dash as Junior Analyst (Technical) on deputation basis in this Department in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- for a further period of one year with effect from forenoon of 19th August 2007 or until further orders whichever is earlier.

S. C. AGRAWAL, Under Secy.

The 6th September 2007

No. A-32011/02/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Bindu Dey, Scientist 'F' in this Department as Scientist 'G' in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- on in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme with effect from the forenoon of 30th August, 2007 and until further orders.

S. C. AGRAWAL, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 19th September 2007

No. 17016/19/97-IFS-II.—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian forest Service (Cadre) Rules, 1966, and with the concurrence of the Government of Andhra Pradesh and the Ministry of Environment and Forests as the cadre controlling authority for the AGMUT, the competent authority has approved the inter cadre deputation of Shri O. V. R. Reddy, IFS (AGMUT) from AGMUT Cadre to Andhra Pradesh cadre for a period of five years with effect from the date the officer joins the post in the State Government of Andhra Pradesh.

C. MURALIDHAR RAO, Dir.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 24th September 2007

No. A-12025/28/2006-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nitasha Gupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 20.07.2007 until further orders. Dr. Nitasha Gupta is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. She would be on probation for a period of two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 25th September 2007

No. A-12025/64/2006-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Dipankar Dasgupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 10.04.2007 until further orders.

Dr. Dipankar Dasgupta is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Dipankar Dasgupta shall be on probation for two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi-110011, the 7th September 2007

No. A-22012/2/2007-Estt. III.—In pursuance to the Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12016/8/NFSG/06-07/2007-ISS dated 01.08.2007 Shri Rajeshwar Prasad, Joint Director stands promoted to the Non Functional Selection Grade (NFSG) in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from 29.11.2006 (FN) in the Department of Health & Family Welfare.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 19th September 2007

No. A-32013/08/2005-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year 2001 & 2002 for appointment to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/2/2006-CS. I (Desk) dated 20th August, 2007, the following officers of the CSS in the Department of Health & Family Welfare are hereby appointed to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from the date shown against them :—

1. Sh. Mohan Lal Verma	01.7.2001
2. Sh. V. K. Reehl	01.7.2001
3. Sh. L. L. Kamsun	01.7.2002
4. Sh. B. C. Gupta	01.7.2002
5. Sh. N. S. Bedi	01.7.2002
6. Sh. N. Sathyan	01.7.2002
7. Sh. R. K. Jain	01.7.2002
8. Sh. A. K. Singh	01.7.2002
9. Smt. Maya Prakash	01.7.2002

The appointment of the officers to the Grade of Under Secretary on regular basis shall be subject to the final outcome in the Civil Writ Petition No. 3269/2003, CWP No. 3912/2003 and CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi-01, the 27th September 2007

No. 4-1/2006-Fy. Admn.—The President is pleased to appoint Shri G. Ganesan, Senior Economic Investigator as Assistant Director (Eco), Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in Central Institute

of Coastal Engineering for Fishery, Banaglore with effect from 14.09.2007 (FN).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 13th September 2007

No. 4-4/2005-Admn.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri N. P. Gupta, IAS (TN : 72), Member Secretary, National Commission for Women stand retired with effect from 31.08.2007.

MAHESH ARORA, Dir. (Admn.)

New Delhi, the 17th September 2007

No. 22-21/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Samirendra Chatterjee, IAS [AM : 76], as Member Secretary, National Commission for Women, in the rank of Additional Secretary in the scale of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from 10.09.2007 (FN) until further orders.

RAJESH SHARMA, Under Secy.

The 18th September 2007

F. No. 27-1/2007-Admn.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2002, the President is pleased to appoint Shri B. L. Meena of the Central Secretariat Service to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis in the Ministry of Women and Child Development with effect from 01.07.2002. The regular appointment is subject to the final outcome of Civil Writ Petition No. 3269/2003, CWP No. 3912/2003 and CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

This issues in pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 5/2/2006-CS. I (Desk) dated 20.08.2007.

RAJESH SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 26th September 2007

No. 4333/NIC/2007-Admn. II.—The President in exercise of the powers conferred under Rule 15(4) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 dismisses Smt. Archana Sharma, Scientist 'B', (Emp. Code No. 4333) from services in the National Informatics Centre, w.e.f. 03.9.2007.

P. S. PILLAI, Dy. Dir. (Adm-II)

New Delhi-110003, the 28th September 2007

No. PF/2437/NIC/2007/Admn. I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the

resignation of Shri Rajesh Kumar Gundu, Emp. Code-2437, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade "SB", NIC-Hqrs, New Delhi with effect from the afternoon of 05.02.1996 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm-I)

No. NIC/PF/58/2007/Adm-I.—Shri K. G. Nair, Director (Emp. Code : 0058), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2007 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm-I)

No. PF/4407/NIC/2007/Admn. I.—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri Asha Ram Rahar, Emp. Code-4407, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade "SB", NIC-Hqrs, New Delhi with effect from the afternoon of 29.11.1998 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Adm-I)

#### MINISTRY OF RAILWAYS

##### (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 27th September 2007

No. E(GP) 2004/1/57.—The President is pleased to approve of the undermentioned 2 (Group B) officers of Accounts Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Accounts Service (IRAS) with effect from 26.04.2007 on the Railways mentioned against each.

##### PANEL FOR 2006-2007

Name of the Officer

(S/Shri)

Northern Railway

1. V. K. Jaiswal (Belongs to RCF)

Southern Railway

1. A. Govindarajan

MATHEW JOHN,  
Secy. (Railway Board)

#### CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th September 2007

No. 96/E(GR) 1/6/1.—The word provisional indicated against the name of Shri Amitabh Singhal mentioned in Railway Board's Notification No. 96/E(GR) 1/6/1 dated 29.09.2000 may be deleted.

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)

#### CORRIGENDUM

No. 2000/E(GR) 1/6/1.—The word provisional indicated against the names of the following officers notified vide Railway Board's notification No. 2000/E(GR) 1/6/1 dated 6.01.2003 may be deleted :

1. Sh. Ashok Kumar Verma

2. Sh. Ravi Prakash Bharti

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

##### (DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 5th September 2007

No. A-12026/3/06-MA.—The President is pleased to appoint Shri Samuel Darse, IRS (IT : 89) on deputation as Deputy Director General (Legal) at the level of Director in the office of the Directorate General of Shipping, Mumbai, with effect from 11.7.2007 (FN) for a period of five years, or until further orders which event takes place earlier.

R. N. TRIPATHY, Dy. Secy.

The 21st September 2007

No. A-12025/1/06-MA.—The President is pleased to appoint Shri Suresh Kumar R. M. Ship Surveyor, as Deputy Chief Ship Surveyor-cum-Sr. DDG (Technical) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Directorate General of Shipping, Mumbai with effect from 23rd August, 2007 (AN) and until further orders.

R. N. TRIPATHY, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 10th September 2007

No. A-11019/1/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Tiwari as Deputy Secretary (ad-hoc) (Selection Grade of CSS) in the Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- purely on adhoc basis, w.e.f. 03.09.2007 (FN) until further orders.

2. The appointment is subject to the conditions that the adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade and the adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason.

SUBHASH CHAND, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 11th September 2007

No. A-12022/4/2007-E-I.—The President is pleased to appoint Shri Ajay Sehgal, IFS (UP : 86) as Director in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways

(Department of Road Transport & Highways) on deputation basis under the Central Staffing Scheme in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 for a period of 5 years w.e.f. 3.9.2007 (FN) or until further orders, whichever event takes place earlier.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 24th September 2007

No. 31/2007. F. No. A-38012/1/2007-Adm. I.—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, Central Electricity Authority retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st August, 2007 on attaining the age of superannuation :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation
1.	Sh. P. K. Ramakrishnan	Chief Engineer
2.	Sh. A. N. Gopinathan	Director

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 32/2007-No. A-38012/1/2007-Adm. I.—The President is pleased to appoint Shri Raghendra Pratap Singh in the grade of Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority with effect from 10th July, 2007 (forenoon) until further orders.

2. Shri Raghendra Pratap Singh will be on probation for a period of two years.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 27th September 2007

No. 33/2007. F. No. A-32013/2/2006-Adm. I.—The President is pleased to appoint the following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, to the Junior Administrative Grade of the Central Power Engineering (Group A) Service (Director/Superintending Engineer) in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Central Electricity Authority in an officiating capacity, with effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment
1	2	3
1.	Sh. A. N. Gopinathan	16.06.2006 (FN)
2.	Sh. S. C. Nakra	16.06.2006 (FN)
3.	Sh. R. K. Aggarwal-II	16.06.2006 (FN)

1	2	3
4.	Sh. Dinesh Chandra	03.07.2006 (FN)
5.	Sh. T. K. Saha	15.09.2006 (FN)
6.	Sh. Chandra Shekhar	14.11.2006 (FN)
7.	Sh. Janki Prasad	07.08.2007 (FN)
8.	Sh. Kanti Prasad	21.12.2006 (FN)
9.	Sh. S. K. Bhattacharya	05.02.2007 (AN)

R. C. ARORA, Under Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 19th September 2007

No. 704/14/2006-B(D).—Consequent upon his selection by the Public Enterprises Selection Board, the President is pleased to appoint Shri Harkesh Gupta, Director (O&M), M/s Broadcast Engineering Consultants India Ltd. (BECIL), a public sector undertaking under the administrative control of Ministry of Information and Broadcasting as Chairman-cum-Managing Director of the BECIL with effect from 01.09.2007 (FN) in the scale of pay of Rs. 22,500—27,300/- for the period of five years, or till the date of his superannuation which ever is earlier.

GIRISH CHAND, Under Secy.

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 28th September 2007

No. A-32012/02/2005-ISH. II.—The President is pleased to appoint Shri A. S. Singh to the post of Law Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad, with effect from 07.08.2007 (FN) and until further orders.

M. S. AZAD, Under Secy.

No. A-32012/09/2006-ISH. II.—The President is pleased to appoint Shri R. Ramachandiran to the post of Deputy Director General of Mines Safety (Electrical) in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad, with effect from 13.09.2007 (FN) and until further orders.

M. S. AZAD, Under Secy.

No. A-32012/10/2006-ISH. II.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Talukdar to the post of Director of Mines Safety (Electrical) in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad, with effect from 17.09.2007 (FN) and until further orders.

M. S. AZAD, Under Secy.